

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30052024-254445
SG-DL-E-30052024-254445असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]	दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2024/ज्येष्ठ 8, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 59
No. 144]	DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2024/JYAISHTHA 8, 1946	[N. C. T. D. No. 59

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 मई, 2024

फा.सं.10(1)(10)/एसआई/पीओ (आईएडीपी)/2022/414.—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 2 की उपधारा (14) के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा बीज नियमावली, 1968 के अनुसार निर्धारित योग्यता रखने वाले डॉ० राहुल कुमार, तकनीकी सहायक को बीज नियमावली, 1968 के अनुसार छह माह की अवधि के लिए बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के अपने मौजूदा कर्तव्यों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु बीज विश्लेषक के कामकाज का निर्वहन करने के लिए तत्काल प्रभाव से नामित करते हैं।

यह अधिसूचना भासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

दिनांक 13.10.2014 की अधिसूचना सं. 10(196)/पीओ/स्था./2014-15/2376-2383 को एतद् द्वारा अधिक्रमित किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. पी. मीणा, विशेष विकास आयुक्त

DEVELOPMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 28th May, 2024

F. No. 10(1)(10)/SI/PO (IADP)/2022/414.—In exercise of the powers conferred by Section 12 read with sub-section (14) of Section 2 of the Seed act, 1966 (54 of 1966), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to designate Dr. Rahul Kumar, Technical Assistant, possessing the prescribed qualification as per the Seed Rules, 1968 to discharge the functioning of the Seed Analyst for National Capital Territory of Delhi with immediate effect, in addition to his existing duties without any extra remuneration for a period of six months as per Seed Rules, 1968.

The notification shall come into force on the date of its publication in official gazette.

The Notification No. 10(196)/PO/Estt./2014-15/2376-2383, dated 13.10.2014 is hereby superseded.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

R. P. MEENA, Special Development Commissioner